

**II – B.A.M.S (2017 COURSE) : SUMMER – 2019**  
**SUBJECT : RASASHASTRA EVAM BHAISHAJYA KALPANA – II**

Day : Saturday  
Date : 08/06/2019

Time : –  
Max. Marks : 08

S-2019-4132

**N.B.**

- 1) All questions are **COMPULSORY**.
- 2) You have to make ✓ such kind or mark in the box of appropriate answer.
- 3) This question paper itself is an answer script you have to return in to the Supervisor after 10 minutes.
- 4) There is no negative marking.

Seat No. \_\_\_\_\_

Total Marks Obtained \_\_\_\_\_

Supervisors Signature \_\_\_\_\_

Signature of the Examiner \_\_\_\_\_

**M.C.Q.**

- 1) Shelf life of Avleha Kalpana is \_\_\_\_\_.
  - a)  6 Months
  - b)  1 Year
  - c)  2 Years
  - d)  6 Years
- 2) Tandulodak is indicated in following disease \_\_\_\_\_.
  - a)  Shwas
  - b)  Kaas
  - c)  Shweta Pradar
  - d)  Grahni
- 3) In the preparation of Anu Taila following milk is used \_\_\_\_\_.
  - a)  Cow
  - b)  Buffalo
  - c)  Goat
  - d)  None of these
- 4) Sidhurasa is prepared from \_\_\_\_\_.
  - a)  Tala
  - b)  Ikshu
  - c)  Kumari
  - d)  Guduchi

P.T.O.

- 5) Chandrodaya Varti is used in \_\_\_\_\_.
- a)  Netra Roga
  - b)  Nasa Roga
  - c)  Yoni Roga
  - d)  Arsha Roga
- 6) Quantity of Sneha Dravya recommended for Matra Basti \_\_\_\_\_.
- a)  6 Tola
  - b)  12 Tola
  - c)  24 Tola
  - d)  20 Tola
- 7) Number of Kashaya Kalpana according to Sushrut Samhita is \_\_\_\_\_.
- a)  8
  - b)  6
  - c)  5
  - d)  7
- 8) Number of Amlaki Phala mentioned in preparation of Chyawanprash are \_\_\_\_\_.
- a)  300
  - b)  500
  - c)  600
  - d)  400

\* \* \*

**II - B.A.M.S. (2017 Course) : SUMMER - 2019**  
**SUBJECT : RASASHASTRA EVAM BHAISHAJYA KALPANA – II**

Day : Saturday  
Date : 08/06/2019

Time 10.00 AM TO 01.00 PM  
Max. Marks : 72

**S-2019-4132**

**N.B.**

- 1) All questions are **COMPULSORY**.
- 2) Figures to the right indicate **FULL** marks.
- 3) Draw neat and labeled diagrams **WHEREVER** necessary.
- 4) Answers to both the sections should be written in **SAME** answer book.

**SECTION - I**

Long Answer (2 x 12 Marks )

**Q.1** Elaborate Swaras Kalpana with the help of following points – Definition, Manufacturing process, Prakshepa Dravya, Standard Dose and general uses. **(12)**

**Q.2** Write ingredients with ratio, manufacturing process, testing criteria, dose and therapeutics use of Kushamanda Avaleha. **(12)**

Short Answers (1 x 8 Marks) **(08)**

**Q.3** Explain any two fundamental principles of Bhaishajya Kalpana.

**Q.4** Write Short Note on **ANY ONE** (1 x 4 Marks) **(04)**

- a) Tableting Machine
- b) Types of Yusha and its therapeutic use.

**SECTION - II**

Long Answer (2 x 12 Marks )

**Q.5** Write ingredients with ratio, manufacturing process, testing criteria, dose and use of Narayan Taila. **(12)**

**Q.6** Write ingredients with ratio, manufacturing process, testing criteria, dose and use of Drakshasava. **(12)**

Short Answers (1 x 8 Marks) **(08)**

**Q.7** Write types of Basti and write ingredients with ratio and use of Piccha Basti.

**Q.8** Write short notes on **ANY ONE** (1 x 4 Marks) **(04)**

- a) Method of preparation of Eye Ointments
- b) Ayurvedic Tooth Powder

\* \* \*

## हिंदी रूपांतर

### सूचना:

- १) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- २) दाहिने ओर दिए हुए अंक गुणोंका निर्देश करते हैं।
- ३) दोनों विभाग एकही उत्तरपत्रिका में लिखिए।

### विभाग - १

- प्र.१ व्याख्या, निर्माणविधि, प्रक्षेप द्रव्य, मात्रा और उपयोग के साथ स्वरस कल्पना का (१२) वर्णन कीजिए।
- प्र.२ कुष्माण्ड अवलेह के घटक द्रव्य सप्रमाण, निर्माणविधि, सिद्धीलक्षण, मात्रा और (१२) उपयोग लिखिए।
- प्र.३ भैषज्य कल्पना के कोई २ आधारभूत सिद्धांत वर्णन कीजिए। (०८)
- प्र.४ टिप्पणी लिखिए। (कोई भी एक) (०४)
- अ) टैबलेटिंग मशीन  
ब) युष के प्रकार और उपयोग

### विभाग - २

- प्र.५ नारायण तैल के घटक द्रव्य सप्रमाण, निर्माणविधि, सिद्धीलक्षण, मात्रा और उपयोग (१२) लिखिए।
- प्र.६ द्राक्षासव के घटकद्रव्य सप्रमाण, निर्माणविधि, सिद्धीलक्षण, मात्रा और उपयोग (१२) लिखिए।
- प्र.७ बस्ति के प्रकार लिखकर, पिच्छा बस्ती के घटक द्रव्य सप्रमाण, और उपयोग लिखिए। (०८)
- प्र.८ टिप्पणी लिखिए। (कोई भी एक) (०४)
- अ) आय ऑईन्टमेंट निर्माण विधि  
ब) आयुर्वेदिक दूध पावडर

\* \* \* \*